

संत थॉमस स्कूल धुर्वा, राँची

कक्षा - तीन

विषय - हिंदी

पाठ - 16

भूल न जाना

माँडल उत्तर

शब्दार्थ:-

व्यर्थ - बेकार

कसरत - व्यायाम

तन - शरीर

स्वच्छ - साफ़

नित्य - रोज़

शिथिलता - सुस्ती, ढीलापन

मान - इज़्ज़त

आशीष - आशीर्वाद

अभिमान - घमंड

प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

क) आप सवेरे कितने बजे उठते हैं ?

उत्तर - मैं सवेरे छह बजे उठता/उठती हूँ।

ख) तन किससे स्वस्थ बनता है?

उत्तर - तन कसरत से स्वस्थ बनता है।

ग) हमें व्यर्थ के बहाने क्यों नहीं बनाने चाहिए?

उत्तर - हमें व्यर्थ के बहाने नहीं बनाने चाहिए क्योंकि व्यर्थ के बहाने बनाने से हमारा काम समय पर नहीं हो पाता है।

घ) स्वस्थ रहने के लिए कौन-सी दो बातें जरूरी है?

उत्तर- स्वच्छ भोजन तथा प्रतिदिन कसरत स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है।

ड) स्कूल से मिला गृह कार्य समय पर कर लेने से क्या लाभ होता है ?

उत्तर - स्कूल से मिला गृह कार्य समय पर कर लेने से पढ़ा हुआ पाठ हमें याद रहता है और शिक्षक भी प्रसन्न रहते हैं।

च) बड़ों का आदर करने से तुम्हें क्या मिलता है ?

उत्तर- बड़ों का आदर करने से हमें आशीर्वाद मिलता है।

प्रश्न - सही शब्द चुनकर पंक्तियाँ पूरी करिए :-

उत्तर - क) काम समय पर ही सब करना।

उत्तर - ख) काम नित्य अपना सब करना।

उत्तर- ग) नहीं कभी अभिमान दिखाना।

-----x-----